

## प्रेस नोट

### वाहन चोरी करने वाले एक गैंग के तीन सदस्यों को नाजायज चाकू व तीन अदद चोरी की मोटर साइकिल के साथ आदमपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नर वाराणसी के निर्देशन व श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी जोन तथा श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय के कुशल मार्गदर्शन में रोकथाम जुर्म जरायम शान्ति व्यवस्था व कोविड-19 के दृष्टिगत आज दिनांक 23.07.2021 को उ0नि0 कुँवर अंशुमान सिंह, उ0नि0 श्री शिव सहाय सरोज, उ0नि0 सुरेश प्रकाश सिंह, उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव हमराह का0 विजयशंकर गुप्ता का0 संजय वर्मा व का0 महेन्द्र यादव के देखभाल क्षेत्र रात्रिगस्त तलाश वांछित वारण्टी मे मामूर होकर कज्जाकपुरा रेलवे फाटक पर पहुचकर हम पुलिस वाले अपराध व अपराधियों के बारे मे बातचीत कर रहे थे कि मुखवीर खास की सूचना पर विश्वास कर बसन्ता कालेज पहुँचें जहाँ पर तीन व्यक्ति एक मोटर साइकिल के साथ खड़े थें जो हम पुलिस वालों को देखकर भागने लगे। हम पुलिस वाले पीछा करके घेरघार कर जोगी बीर बाबा मन्दिर के पास से तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिये। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पकड़े गये तीनों व्यक्तियों के पास से एक एक अदद चाकू व एक अदद मोटर साइकिल हिरो ग्लैम्बर व रंग काला जिसका नम्बर UP 65 BM 8671 चेचिस नम्बर MBLJA06ACDGGJ00513 व इन्जन नम्बर JA06EJDGGJ00501 अंकित मिला। बरामद मोटर साइकिल व चाकूओ के सम्बन्ध मे कागज तलव किया गया तो दिखाने से कासिर है कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों व्यक्ति बतायें कि साहब हम तीनों मिलकर इस मोटर साइकिल को सक्कर तलाब जैतपुरा से चोरी किये थे और समय पाकर आज इस मोटर साइकिल को छिपाने हेतु चन्दन शहिद मजार के पीछे ले जा रहे थे कि आप लोग पकड़ लिये और कड़ाई से पूछताछ करने पर बतायें कि हम तीनों मिलकर दो और मोटर साइकिल चुरा कर पहले से चन्दन शहीद मजार के पीछे वरुणा नदी के किनारे बास की ओट के पिछे छिपा कर रखे है। वही इस मोटर साइकिल को भी रखने हेतु ले जा रहे थे। हम तीनों मिलकर मोटर साइकिलो को चुराकर वही छुपा कर रखा करते है और ग्राहक खोजकर इनको बेचने का व्यापार करते है तीनों के पास से बरामद चाकुओ के बारे मे पुछने पर बता रहे है कि साहब चाकुओ को हम लोग इस लिए रखते है कि चोरी करते समय अथवा ले जाते समय यदि किसी व्यक्ति से पकड़े जाने का खतरा होता है तो इन्ही चाकूओ से डराकर हम लोग वहाँ से निकलने मे कामयाब हो जाते है पकड़े गये तीनों व्यक्तियों से बरामद मोटर साइकिल व चाकुओ के साथ हम पुलिस वाले अन्य दो मोटर साइकिलो की बरामदगी के लिए चन्दन शहीद मजार के पीछे वरुणा नदी के किनारे पहुचे तो तीनों व्यक्ति आगे आगे चलते हुए बास की ओट के पीछे छिपाकर रखी हुयी दो मोटर साइकिले बरामद करवाये जिनका नम्बर UP 61 AA 0127 सुपर स्पेलण्डर रंग काला चेचिस नं0 MBLJA05EMF9J01050 व इन्जन नं0 JA05ECF9J06336 अंकित मिला तथा तीसरी मोटर साइकिल का नम्बर UP 70 AL 0184 टिविएस स्टार सीटी रंग काला चेचिस नम्बर MD625KF5961A70071 व इन्जन नं0 AF5A61183316 अंकित मिला। पकड़े गये व्यक्तियों को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 2.50 वजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. इरशाद उर्फ लड्डू पुत्र मुख्तार अहमद उर्फ मोटू निवासी A 35/7A-1 जलालीपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र करीब 21
2. मो0 रफत हुसैन उर्फ सोनू पुत्र मौलान असगर अली निवासी A 35/74 -1आई एक्स एम जलालीपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष
3. मो0 जफर उर्फ मोहम्मद पुत्र मजिबुर्हमान निवासी A35/74 HA जलालीपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष

### गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0स0 100/21 धारा 34/41/411/413/414 भा0द0वि0 थाना आदमपुर वाराणसी
- 2- मु0अ0स0 101 धारा 4/25 आर्म्स ACT थाना आदमपुर वाराणसी
- 3- मु0अ0स0 102 धारा 4/25 आर्म्स ACT थाना आदमपुर वाराणसी
- 4- मु0अ0स0 103 धारा 4/25 आर्म्स ACT थाना आदमपुर वाराणसी

### बरामदगी:-

1. तीन अदद नाजायज चाकू
2. UP 65 BM 8671 हिरो ग्लैम्बर व रंग काला
3. UP 61 AA 0127 सुपर स्पेलण्डर रंग काला
4. UP 70 AL 0184 टिविएस स्टार सीटी रंग काला

### गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 कुँवर अंशुमान सिंह चौकी प्रभारी आदमपुर थाना आदमपुर
2. उ0नि0 श्री शिव सहाय सरोज, प्रभारी लाटभैरव थाना आदमपुर
3. उ0नि0 सुरेश प्रकाश सिंह थाना आदमपुर
4. उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव थाना आदमपुर
5. का0 विजयशंकर गुप्ता थाना आदमपुर
6. का0 संजय वर्मा थाना आदमपुर
7. का0 महेन्द्र यादव थाना आदमपुर

प्रभारी निरीक्षक  
थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी